

Roll No. [ ]

24203-MN

**B.Sc. II SEMESTER [MAIN/ATKT] EXAMINATION  
JUNE - JULY 2024**

**BIOTECHNOLOGY  
[Cell Biology and Biochemistry]  
[Minor Subject]**

[Max. Marks : 60]

[Time : 3:00 Hrs.]

Note : All THREE Sections are compulsory. Student should not write any thing on question paper.  
नोट : सभी तीन खण्ड अनिवार्य हैं। विद्यार्थी प्रश्न-पत्र पर कुछ न लिखें।

**[Section - A]**

This Section contains **Multiple Choice Questions**. Each question carries **1 Mark**. All questions are compulsory.

इस खण्ड में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **1** अंक का है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

**Q. 01** Ergosomes are also known as -

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| a) Polyribosomes    | b) Polysomes |
| c) Both (a) and (b) | d) Monosomes |
- अर्गोसोम्स कहलाते हैं –
- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| a) पॉलीराईबोसोम्स   | b) पॉलीसोम्स |
| c) (a) और (b) दोनों | d) मोनोसोम्स |

**Q. 02** Who coined the term PLASMALEMMA -

- |              |               |
|--------------|---------------|
| a) C. Nageli | b) C. Cramer  |
| c) Pfeffer   | d) J.Q. Plowe |

शब्द 'प्लाज़मालेमा' किसने दिया –

- |              |                    |
|--------------|--------------------|
| a) सी. नगेली | b) सी. क्रेमर      |
| c) पेफर      | d) जे. क्यू. प्लोव |

**Q. 03** Bicarbonate buffer system existing -

- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| a) Blood Stream | b) Lungs  |
| c) Liver        | d) Kidney |

बाईकार्बोनेट बफर तंत्र कहाँ पाया जाता है –

- |             |                |
|-------------|----------------|
| a) रक्त में | b) फेफड़ों में |
| c) यकृत में | d) वृक्क में   |

**Q. 04** Which one is not a Macro Molecules -

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| a) Minerals         | b) Vitamins |
| c) Both (a) and (b) | d) Lipid    |
- निम्न में से कौन सा वृहद अणु नहीं है –
- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| a) खनिज             | b) विटामिन्स   |
| c) (a) और (b) दोनों | d) लिपिड (वसा) |

**Q. 05** In column chromatography -

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| a) Stationary phase is a solid. | b) Mobile Phase is a solid  |
| c) Stationary phase is a liquid | d) All of these are correct |
- कॉलम क्रोमेटोग्राफी में होती है –
- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| a) स्थिर प्रवस्था ठोस है | b) चलित प्रवस्था ठोस है |
| c) स्थिर प्रवस्था तरल है | d) उपरोक्त सभी सही है   |

---

**[Section - B]**

This Section contains **Short Answer Type Questions**. Attempt **any five** questions in this section in 200 words each. Each question carries **7 Marks**.

इस खण्ड में लघुउत्तरीय प्रश्न हैं। इस खण्ड में किन्हीं पांच प्रश्नों को हल करें। प्रत्येक उत्तर 200 शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है।

---

**Q. 01** Describe the structure and functions of Ribosomes ?

राईबोसोम की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिये ?

**Q. 02** Describe the structure and functions of Lysosomes ?

लाइसोसोम्स की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिये ?

**Q. 03** Give an account of cell death or apoptosis ?

कोषा मृत्यु अथवा एपोपटोसिस का विवरण दीजिये ?

**Q. 04** Write an essay on Buffer ?

बफर पर एक निबंध लिखिये ?

**Q. 05** Give a classification of carbohydrate with suitable examples and their sources ?

उपयुक्त उदाहरणों और उनके स्रोतों सहित कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण दीजिये।

Cont. . .

**Q. 06** Describe the ultra structure, functions and modifications of Flagellum ?

कक्षाय की अति सूक्ष्म संरचना, कार्यों एवं रूपान्तरणों का वर्णन कीजिये।

**Q. 07** Write an essay on Paper Chromatography ?

पेपर क्रोमेटोग्राफी पर एक निबंध लिखिये ?

**Q. 08** Describe the structure and functions of PEROXISOMES ?

पेरोक्सीसोम्स की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिये।

---

**[Section - C]**

This section contains **Essay Type Questions**. Attempt **any two** questions in this section in 500 words each. Each question carries **10 marks**.

इस खण्ड में दीर्घउत्तरीय प्रश्न हैं। इस खण्ड में किन्हीं दो प्रश्नों को हल करें। प्रत्येक उत्तर 500 शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न **10** अंकों का है।

**Q. 09** Write an essay on structure and functions of Mitochondria ?

माईटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों पर एक निबंध लिखिये ?

**Q. 10** Explain the process of Mitotic cell division.

समसूत्री कोषा विभाजन की प्रक्रिया को समझाइये।

**Q. 11** Describe the principal and working of spectrophotometer.

स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के सिद्धांत एवं कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिये।

**Q. 12** Explain the physical and chemical structure of DNA model of Crick and Watson ?

क्रिक – वाटसन के डी.एन.ए. मॉडल की भौतिक एवं रासायनिक संरचना को समझाइये।

